



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP40695467314611T
 Certificate Issued Date : 21-Aug-2021 03:56 PM
 Account Reference : NONACC (BK)/ upbobbk02/ VRINDAWAN YOGNA/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPBOBBK0267222510967306T
 Purchased by : SHAILA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : FLAT NO 20/D-4/403, 2BHK TYPE B GOVERDHAN ENCLAVE
 VRINDAVAN YOJNA RAIBARELI ROAD, LUCKNOW.
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
 Second Party : SHAILA
 Stamp Duty Paid By : SHAILA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,38,800
 (Two Lakh Thirty Eight Thousand Eight Hundred only)

240



Please write or type below this line



श

क्रेता



वि

विक्रेता

KC 0004562990

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

IS 15700:2005



सेवात्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्रांक 9618

/सं0प्र0 वृन्दावन/

दिनांक 26-8-2024

सेवा मे,

श्रीमती शैला

पत्नी श्री मनोज कुमार

निवासी म0न0-175/1, रवि नगर कालोनी, मुगलसराय मुगलसराय, सकलडीहा,
चंदौली (उ0प्र0)232101

विषय:-गोवर्धन एन्क्लेव के 2BHK Type B के फ्लैट सं0 20/D-4/403 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे सूचित करना है कि आपके पक्ष मे आंवटित फ्लैट सं0 20/D-4/403 का विक्रय विलेख रू0 238800.00 के स्टाम्प पेपर निष्पादित कर दिया गया है जो मूलरूप मे एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिनों के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय मे उपस्थित होकर विलेख पंजीयन कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय मे प्रस्तुत करे ताकि फ्लैट का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके जिससे परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0डी0शर्मा)

सम्पत्ति प्रबन्धक

पृष्ठ सं0





/उक्त/

तददिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार कार्यालय, सरोजनी नगर, लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक

सिलसिले का नम्बर	वर्ग	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					<p>क्रेता / प्रस्तुतकर्ता श्रीमती शैलापत्नी श्री मनोज कुमार म०न०-175/1, रवि नगर कालोनी, मुगलसराय मुगलसराय, सकलडीहा, चंदौली (उ०प्र०)232101</p>	 क्रेता
					<p>विक्रेता सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ</p>	 विक्रेता
						
					<p>योजना सहायक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ</p>	



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



शैला
Shaila
DOB: 28-06-1981
Gender: Female



9748 9996 9153


आधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

अर्धांगिनी: मनोज कुमार, 175 / 1,
रवि नगर कलोनी, मुगलसराय,
मुगलसराय, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर
प्रदेश, 232101

Address:
W/o: Manoj Kumar, 175 / 1, Ravi
Nagar Colony, Mugalsarai,
Mugalsarai, Sakaldiha, Chandauli,
Uttar Pradesh, 232101



1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No.1947,
Bengaluru-560 601



भारत सरकार
Government of India



जुरैर अहमद अजमी
Zurair Ahmad Azmi
जन्म तिथि / DOB : 07/04/1974
पुरुष / Male



6946 3811 8183

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय पहचान अधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: जुलफेकर अहमद,
4/14, डालीबाग ऑफिसर्स कॉलोनी,
लखनऊ, लखनऊ जी.पी. उत्तर प्रदेश,
226001

Address: S/O: Zulfequar Ahmad, 4/14,
dalibagh officers colony, Lucknow,
Lucknow G.p, Uttar Pradesh, 226001

6946 3811 8183

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www
www.uidai.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



मोहम्मद अरिफ

Mohammad Arif

जन्म तिथि/ DOB: 12/04/1990

पुरुष / MALE



6326 4713 0121

आधार-आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

S/O मोहम्मद अली, ५५१/८१७
आजाद नगर, ५थ लेन,
आलमबाग, आलमबाग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226005.

Address:

S/O Moham Ali, 551 815 AJAD
NAGAR, 5th lane, ALAMBAGH,
Alambagh, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226005

Arif

6326 4713 0121

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 26 माह 08 वर्ष 2021 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित हैं।

एक पक्ष और श्रीमती शैला पत्नी श्री मनोज कुमार निवासी- म0न0-175/1, रवि नगर कालोनी, मुगलसराय मुगलसराय, सकलडीहा, चंदौली (उ0प्र0)232101 जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधि प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर 20 में निर्मित गोवर्धन एन्क्लेव 2BHK Type B का फ्लैट संख्या-20/D-4/403 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 3427237.00 (रू० चौतीस लाख सत्ताईस हजार दो सौ सैतीस मात्र) जिसका आधा रू० 1713618.50 (रू० सत्तरह लाख तेरह हजार छः सौ अट्टारह एवं पैसे पचास मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या 20/D-4/403) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है।

(जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव रू० 3427237.00 (रू० चौतीस लाख सत्ताईस हजार दो सौ सैतीस मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट संख्या 20/D-4/403 क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-


- (1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद्द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- (2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- (3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।
- (4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।


Shaila
क्रेता

कमशः 2 पर
[Signature]
विक्रेता

- (5) यदि क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
- (6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों/फ्लैटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-
- (क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।
- (ख) क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- (7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा। और यह कि उक्त क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रतिकिसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या- 20/D-4/403) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.5% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।
- (8) क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।
- (9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- 20/D-4/403 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जाये।
- (10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।
- (11) क्रेता को फ्लेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू० 1371.00 प्रति माह " कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। गोवर्धन एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह क्रेता को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक क्रेता को बनना अनिवार्य होगा।

कमश: 3 पर


क्रेता


विक्रेता

- (12) सुपर एरिया पर रू० 1.25 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख-रेख, सफाई विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स ओनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। जीना, बरामदा, पार्किंग स्थान, पार्क, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवर सिस्टम का रख-रखाव (एस०टी०पी०) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होगी।
- (13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगायें गये समस्त कर शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार क्रेता को अदा करना होगा।
- (14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। क्रेता को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख को निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय क्रेता पर प्रभावी होंगे।
- (15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी क्रेता विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- (16) क्रेता द्वारा विद्युत विभाग लखनऊ से निर्धारित वॉल्टेज औपचारिकतायें पूर्ण करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जा सकता है। परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे गोवर्धन एन्क्लेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- (17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मेन्टीनेंस, मरम्मत, पेन्टिंग, ट्यूबवेल मरम्मत, कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर, नाली, एस०टी०पी० एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा, वह क्रेताओं के मध्य विभाजित एवं देय होगा।
- (18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- (19) क्लब, ओपेन एरिया, पार्किंग आदि कामन एरिया उ०प्र० अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।
- (20) फ्लैट के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट्स की चारों दिवारों से लगे हुए फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।
- (21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- (22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- (23) क्रेता द्वारा फ्लैट के विरुद्ध किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।
- (24) उक्त फ्लैट का विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र सेक्टर-20, वृन्दावन योजना सं०-4 लखनऊ।
- (25) सम्बन्धित भूमि के गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग, पाक, खुले स्थल हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने के फलस्वरूप आवासीय भू-उपयोग है।
- (26) भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।

Shaila
क्रेता

Shaila
विक्रेता

(4)

अनुसूची "क"

प्रतिफल की धनराशि रूपये में)

मूल्य रू० 3552855.00

स्टाम्प पेपर रू० 238800.00

उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रू० 3427237.00 ब्याज/दण्ड ब्याज रू० 125618.00 कुल रू० 3552855.00 आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया हैं।


नोट:-(1) शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या- 772/स्टाम्प लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 6 एवं 7 प्रतिशत की दर से ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० IN-UP40695467314611T, DATE:- 21/08/2021 रू० 238800.00 के ई० स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।


नोट:-(2) आवंटित फ्लैट संख्या 20/D-4/403 जो निर्गत पत्र सं० 7951 दिनांक 05/07/2021 छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या-13/संख्या-क०नि०-7-440/11-2015-700(111) /13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा हैं।

वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर-20
मे निर्मित गोवर्धन एन्क्लेव का फ्लैट संख्या--20/D-4/403

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1-	भूमि प्रयोग	-	आवासीय प्रयोग
2-	भूमि का प्रकार	-	फ्लैट
3-	मोहल्ला/ग्राम	-	सेक्टर-20 इब्राहिमपुर वार्ड, लखनऊ
4-	ब्लॉक	-	20/D-4
5-	प्रकार	-	2BHK Type B
6-	सम्पत्ति का विवरण	-	फ्लैट संख्या:- 20/D-4/403
7-	फ्लैट का तल	-	4 TH FLOOR
8-	भूमि का माप	-	31.38 वर्ग मीटर
9-	फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल	-	72.020 वर्ग मीटर
10-	फ्लैट का सुपर एरिया	-	101.87 वर्ग मीटर
11-	फ्लैट का प्रकार	-	आवासीय फ्लैट्स
12-	कुल क्षेत्रफल	-	101.87 वर्ग मीटर
13-	कुल कर्वड क्षेत्रफल	-	72.020 वर्ग मीटर
14-	स्टेट्स फिनिशड	-	फिनिशड
15-	प्रतिफल की धनराशि	-	रू० 3552855.00
16-	मूल्य	-	रू० 3427237.00
17-	बाउन्ड्री आफ दी फ्लैट्स संख्या संलग्नक साईट प्लान के अनुसार।		


क्रता


विक्रेता

कमशः 5 पर

आवेदन सं०: 202101041033128

विक्रय पत्र

वर्ष: 2021

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 25332

प्रतिफल- 3552855 स्टाम्प शुल्क- 238800 बाजारी मूल्य - 3552855 पंजीकरण शुल्क - 35530 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 35590

श्रीमती शैला ,

पत्नी श्री मनोज कुमार

व्यवसाय : नौकरी


निवासी: म०न० 175/1, रवि नगर कालोनी, मुगलसराय मुगलसराय सकलडीहा, चंदौली

उ०प्र० 232101

Shails



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/08/2021 एव 03:36:25 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह,

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

26/08/2021

ओम प्रताप सिंह

निबंधक लिपिक

(5)

अनुसूची-ख
(क्रेता द्वारा किये गये भुगतान का विवरण)

जिसके साक्ष्य में श्री केशव देव शर्मा, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्रीमती शैला आशयिता 20/D-4/403 क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।



Shaila
क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

परिषद की ओर से एवं उसके लिए
सक्षम अधिकारी

दिक्रेता

1-साक्षी:-ह० H.N.Singh

1-साक्षी:-ह०

नाम:- A.N. SINGH

नाम:-

पता:- 403, "Gyan Ganga"
Apartment; 175 Fairabad
Road; Udhokan

पता:-

2-साक्षी:-ह०

2-साक्षी:-ह०



R.A. Azmi

4/3 Dalibagh
officer's colony
Lko

नाम:-

पता:-



Arit

योजना सहायक
उपग्रह आवास एवं विकास परिषद
कानपुर

आवेदन सं०: 202101041033128

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 25332


वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ के द्वारा के०डी० शर्मा, सम्पत्ति प्रबन्धक अधिकारी उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ

ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।



क्रेता: 1

श्रीमती शैला; पत्नी श्री मनोज कुमार

निवासी: म०न० 175/1, रवि नगर कालोनी, मुगलसराय
मुगलसराय सकलडीहा, चंदौली उ०प्र० 232101

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जुरैर अहमद अजमी, पुत्र श्री जुलफेकर अहमद

निवासी: 4/14, डालीबाग, ऑफिसर्स कालोनी, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार



पहचानकर्ता : 2

श्री मोहम्मद आरिफ, योजना सहायक उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ

निवासी: उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे

नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

निर्मल सिंह,

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

ओम प्रताप सिंह

निबंधक लिपिक

**OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER
CONSTRUCTION DIVISION LUCKNOW-01
OFFICE COMPLEX VRINDAVAN YOJANA LUCKNOW**

SITE PLAN FOR REGISTRY

PROJECT NAME - GOVERDHAN ENCLAVE, SEC-20 V.V.Y. NO.4 LUCKNOW

TOWER NAME - D4

SITE PLAN OF FLAT NO. -

TYPE OF FLAT -

NAME OF ALLOTTEE -

SUPER AREA -

PROPORTIONATE LAND AREA -


403

2BHK TYPE B

SHAILA

101.87 Sqm

31.376 Sqm



विक्रेता

शैला
क्रेता


[Signature]
05/03/21
DRAFTSMAN

[Signature]
5.5.21
J.E.

[Signature]
12/03/21
A.E.

आवेदन सं०: 202101041033128

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6974 के पृष्ठ 305 से 318 तक क्रमांक 25332 पर दिनांक 26/08/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

~~निर्मल सिंह,~~

~~उप निबंधक : सरोजनीनगर~~

लखनऊ

26/08/2021